

“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्तियों या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को 1 अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।”।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—मूल अधिसूचना हिमाचल के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-24/2018-लूज द्वारा तारीख 18 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित हुई थी तथा तदोपरान्त अधिसूचना संख्या 57/2018-राज्य कर तारीख 27 अक्टूबर द्वारा संशोधित तथा संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0 (10)-31/2018 के तहत तारीख 29 अक्टूबर, 2018 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-31/2018, dated 05-11-2018 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 61/2018—State Tax

Shimla-2, the 5th November, 2018

No. EXN-F(10)-31/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 50/2018—State Tax, dated the 17th September, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-24/2018-Loose, dated the 18th September, 2018, namely :—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018.”.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-24/2018-Loose, dated the 18th September, 2018 and subsequently amended *vide* notification No. 57/2018—State Tax, dated the 27th October, 2018, published *vide* number EXN-F(10)-31/2018, dated the 29th October, 2018.